

गुरु नानक कॉलेज, धनबाद

153 वीं गांधी जयंती एवं 118 वीं लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई गई


02/10/2022

आज 02/10/2022 को गुरु नानक कॉलेज, धनबाद एन.एस.एस इकाई 1 और 2 के द्वारा गुरु नानक कॉलेज के रूसा सेमिनार हॉल में 153 वीं गांधी जयंती एवं 118 वीं लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई गई । इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. डॉ. संजय प्रसाद ने महान विभूति के रूप में प्रख्यात महात्मा गांधी जी की छायाचित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किये । उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश की आज़ादी में अहम भूमिका का निर्वाह करने वाले अहिंसा के संवाहक के रूप में विख्यात गांधी जी आज भी समाज के लिए प्रासंगिक बने हुए हैं और आगे भी रहेंगे, मौके पर उन्होंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी को भी स्मरण करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किया । मौके पर महाविद्यालय के प्रो. इंचार्ज अमरजीत सिंह(भूदा परिसर) ने कहा की केवल उनके विचारों को बताना ही नहीं बल्कि उसे जीवन में अमल भी करना चाहिए। प्रो. संजय सिन्हा उनके आदर्शों को संबोधित करते हुए कहा कि अपने अस्तित्व को स्थापित करने हेतु सत्य एवं अहिंसा ही कारगर माध्यम हैं । कार्यक्रम का मंच संचालन एन. एस. एस इकाई 1 के कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रो. दीपक कुमार ने किया ।

इस अवसर पर एन. एस एस इकाई -2 के कार्यक्रम पदाधिकारी, डॉ मिना मालखंडी , प्रो. संतोष कुमार, प्रो. पुष्पा तिवारी, प्रो. उदय सिन्हा, प्रो. दलजीत सिंह, प्रो सोनू प्रसाद यादव, प्रो. पीयूष अग्रवाल, प्रो. अभिषेक सिन्हा, प्रो. साधना सिंह, प्रो. अनुराधा सिंह, प्रो. चिरंजित अधिकारी प्रो. स्नेहल गोस्वामी, श्री इंद्रदेव सिंह, श्री नरेंद्र सिंह, श्री साधन मिश्रा समेत अन्य शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी उपस्थित थे।

Photo Gallery







Prabhat Khabar
02-10-2022. Sunday

वरीय संवाददाता, धनबाद

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर रविवार को विभिन्न संगठनों की ओर से कार्यक्रम आयोजन कर दोनों की श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। इस अवसर पर वक्ताओं ने उनके विचारों को आज भी प्रासंगिक बताते हुए उनपर अमल करने की बात कही।

इस अवसर पर गुरुनानक कॉलेज की एनएसएस इकाई की ओर से रविवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनायी गयी। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्राचार्य डॉ संजय प्रसाद ने महात्मा गांधी व लाल बहादुर की तस्वीर पर श्रद्धासुमन अर्पित किये। मौके पर कॉलेज के प्रो ईचार्ज अमरजीत सिंह ने दोनों के विचारों पर अलम करने की बात कही। कार्यक्रम को प्रो संजय सिन्हा ने भी संबोधित किया। मौके पर एनएसएस इकाई के कार्यक्रम पदाधिकारी डॉ मिना मालखंडी, प्रो संतोष कुमार, प्रो पुष्पा तिवारी, प्रो उदय सिन्हा, प्रो दलजीत सिंह, प्रो सोनू प्रसाद यादव, प्रोण पीयूष अग्रवाल, प्रो. अभिषेक सिन्हा, प्रो. साधना सिंह, प्रो. अनुराधा सिंह, प्रो. चिरंजीत अधिकारी, प्रो. स्नेहल गोस्वामी, इंद्रदेव सिंह, नरेंद्र सिंह, साधन मिश्रा आदि उपस्थित थे।